

सुखाचार (1882 के अधिनियम सं० 5 का विस्तार)

(1891 का अधिनियम संख्यांक 8)

[6 मार्च, 1891]

भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 का कतिपय
उन क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए,
जिनमें वह प्रवृत्त नहीं है,
अधिनियम

यतः भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 का उन कतिपय क्षेत्रों में विस्तार करना समीचीन है जिनमें वह प्रवृत्त नहीं है; अतः निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. 1882 के अधिनियम 5 का मुम्बई और उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों और अवध में विस्तार—भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 (1882 का 5) का विस्तार, सपरिषद् मुम्बई के राज्यपाल और उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों के उपराज्यपाल और अवध के मुख्य आयुक्त के अपने-अपने प्रशासित राज्यक्षेत्रों में किया जाता है।

¹ अब उत्तर प्रदेश।